



पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA
सत्यमेव जयते



सार्वजनिक स्थल पर न थूकें, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखें




स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) : फेज़ 2



पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA
सत्यमेव जयते



पीने का पानी रखें साफ, बीमारी कभी न आये पास



स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) : फ्रेज़ 2



पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA



एक कदम स्वच्छता की ओर

पाँच आदतें हम अपनाएँ, बीमारी को दूर भगाएँ

शौचालय का इस्तेमाल
और साफ-सफाई करें



सार्वजनिक स्थलों
पर न थूकें



हमेशा मास्क का प्रयोग करें और
पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाये रखें



दिन में कई बार साबुन
से हाथ धोएँ



पीने के पानी को साफ और
सुरक्षित स्थान पर रखें

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) : फ़ेज़ 2

साबुन पानी से धोएं हाथ, बीमारी को दे दें मात

खाना खाने
से पहले



शौच के बाद



खाना पकाने
से पहले



हर कोई, हर रोज, हमेशा



शिशु मल की
सफाई के बाद

बदल कर अपना व्यवहार, करें कोरोना पर वार

सार्वजनिक स्थल पर न थूकें, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखें





पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA
सत्यमेव जयते



करें शौचालय उपयोग हमेशा, रखें इसको स्वच्छ हमेशा



स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) : फेज 2



पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA

स्वच्छमेव जयते




एक कदम स्वच्छता की ओर



एक गड्ढा
अनेक लाभ

प्रदूषण कम
जल स्तर में बढ़ाव




घर के पास
सोख्ता गड्ढा
बनवाएं

करें हमेशा ऐसा काम अच्छा पर्यावरण हो परिणाम

सिंगल यूज प्लास्टिक का कम प्रयोग



प्लास्टिक का पुनः प्रयोग



अपशिष्ट पृथक्करण

